



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1937 (श०)
(सं० पटना 14) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2015

सं० 22 नि० सि० (सिवान)—11-04/2010/2579—श्री पारसनाथ राय (आई० डी० जे०—5176), तत्कालीन अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुढ़नी सम्प्रति सेवानिवृत्त को कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०—738 दिनांक 07.05.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 दिनांक 03.09.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०—641 दिनांक 01.06.11 द्वारा निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया—

1. निन्दन वर्ष 2009—10
2. भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० सं०—23010/12 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07.03.14 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं०—1404 दिनांक 22.09.14 द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०—641 दिनांक 01.06.11 निरस्त कर दिया गया एवं श्री राय से जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर कारण

पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त सम्यक विचारोपरान्त श्री राय के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-801 दिनांक 06.04.15 द्वारा इस मामले को संचिकास्त किया गया है।

श्री राय के निलंबन अवधि के संबंध में वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के पत्रांक 1171 (21) दिनांक 19.06.15 एवं श्री पारसनाथ राय के आवेदन दिनांक 18.09.15 के सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि श्री राय को चूँकि आरोप मुक्त किया जा चुका है अतएव श्री राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को निलंबन अवधि दिनांक 07.05.10 से 31.05.11 को कर्तव्य अवधि मानते हुए इन्हें तदनुरूप वेतनादि देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 14-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>